

5303-C

M.Com. (FINAL) A.B.S.T. EXAMINATION, 2019

Paper – III – C

IFRS FOR SMALL & MEDIUM-SIZED ENTITIES (SMES)

Time: Three Hours

Maximum Marks: 100

PART – A (खण्ड – अ)

[Marks: 20]

Answer all questions (50 words each).

All questions carry equal marks.

सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 50 शब्दों से अधिक न हो।

सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

PART – B (खण्ड – ब)

[Marks: 50]

Answer five questions (250 words each).

Selecting one from each unit. All questions carry equal marks.

प्रत्येक इकाई से एक-एक प्रश्न चुनते हुए, कुल पाँच प्रश्न कीजिए।

प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 250 शब्दों से अधिक न हो।

सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

PART – C (खण्ड – स)

[Marks: 30]

Answer any two questions (300 words each).

All questions carry equal marks.

कोई दो प्रश्न कीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 300 शब्दों से अधिक न हो।

सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

PART – A / खण्ड – अ

Q.1 (i) What are the objectives of SMEs financial statements?

SMEs के वित्तीय विवरणों के उद्देश्य क्या हैं?

(ii) What do you understand by complete set of financial statements?

वित्तीय विवरणों के पूर्ण समूह से आप क्या समझते हैं?

(iii) Define current assets as per section-4.

धारा-4 के अनुसार चालू सम्पत्तियों को परिभाषित कीजिए।

(iv) Mention four examples of cash flows from financing activities.

वित्तीय क्रियाओं से होने वाले नकद प्रवाहों के चार उदाहरण दीजिए।

(v) Define intangible assets as per section-18.

धारा-18 के अनुसार अदृश्य सम्पत्तियों को परिभाषित कीजिए।

(vi) Mention scope of section-19.

धारा-19 का कार्यक्षेत्र बताइए।

(vii) When a provision is recognised?

प्रावधान को पुस्तकों में कब लिखा जाता है?

(viii) What are treasury shares? How it is treated while preparing financial instrument?

कोष अंश क्या होते हैं? वित्तीय विवरण बनाते समय इनका व्यवहार किस प्रकार किया जाता है?

(ix) How is revenue measured as per section-23?

धारा-23 के अनुसार आय का मापन किस प्रकार किया जाता है?

(x) How is tax base of an asset and a liability is determined?

एक सम्पत्ति तथा एक दायित्व के कर आधार का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है?

PART – B / खण्ड – ब

UNIT –I/ इकाई – I

- Q.2 Describe small and medium sized entities in detail.
छोटे एवं मध्यम आकार के उपक्रमों का विस्तार से वर्णन कीजिए।
- Q.3 What are the qualitative characteristics of information in financial statements?
वित्तीय विवरणों की सूचनाओं की गुणात्मक विशेषताएँ क्या हैं?

UNIT –II/ इकाई – II

- Q.4 What are the information to be presented in the statement of financial position as per section-4?
धारा-4 के अनुसार वित्तीय स्थिति विवरण में प्रदर्शित की जाने वाली सूचनाएँ कौन-सी हैं?
- Q.5 What are the two methods of reporting cash flows from operating activities?
Discuss.
परिचालन गतिविधियों से उत्पन्न नकद प्रवाहों को प्रतिवेदित करने की दो विधियाँ कौन सी हैं? चर्चा कीजिए।

UNIT –III/ इकाई – III

- Q.6 Mention the scope of section-18 and discuss the recognition and measurement principles for intangible assets.
धारा-18 का कार्यक्षेत्र बताइए तथा अदृश्य सम्पत्तियों के पुस्तकों में लेखन व मापन सिद्धान्तों पर चर्चा कीजिए।
- Q.7 How the lease is classified into finance lease or operating lease? Mention the initial recognition and subsequent measurement requirements of finance lease.
पट्टे का वित्तीय पट्टे या परिचालन पट्टे में वर्गीकरण कैसे किया जाता है। वित्तीय पट्टे के प्रारम्भिक लेखन तथा उत्तरवर्ती मापन आवश्यकताओं का वर्णन कीजिए।

UNIT –IV/ इकाई – IV

- Q.8 Elaborate the disclosure required for provisions, contingent assets and contingent liabilities.
प्रावधान, संदिग्ध सम्पत्तियों तथा संदिग्ध दायित्वों के लिए आवश्यक प्रकटीकरणों का वर्णन कीजिए।
- Q.9 Explain with suitable examples, how financial instrument are classified as liability or equity.
उपयुक्त उदाहरणों की सहायता से समझाइए कि वित्तीय प्रपत्रों को दायित्व या समता में किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है?

UNIT -V/ इकाई - V

Q.10 Explain the recognition criteria for revenue from sale of goods and rendering of services.

उत्पादों के विक्रय तथा सेवा प्रदान करने से हुई आय को पुस्तकों में लिखने सम्बन्धी प्रावधानों को समझाइए।

Q.11 Write a detailed note on section-25.

धारा-25 पर एक विस्तृत नोट लिखिए।

PART - C / खण्ड - स

Q.12 Write short note on the following with reference to section-3:

- (i) Fair presentation
- (ii) Going Concern
- (iii) Frequency of reporting

धारा-3 के सन्दर्भ में निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए—

- (i) उचित प्रस्तुतीकरण
- (ii) चालू व्यवसाय
- (iii) प्रतिवेदन की आवृत्ति

Q.13 How inventories should be measured as per section-13?

धारा-13 के अनुसार सामग्री का मापन किस प्रकार किया जाना चाहिए?

Q.14 Elaborate the accounting procedure for business combination.

व्यवसाय संयोजन के लिए लेखांकन प्रक्रिया को समझाइए।

Q.15 Describe the initial recognition, initial measurement and subsequent measurement for 'Provisions'.

'प्रावधानों' के प्रारम्भिक लेखन, प्रारम्भिक मापन तथा उत्तरवर्ती मापन आवश्यकताओं का वर्णन कीजिए।

Q.16 Describe in detail, how the deferred tax is recognised.

स्थगित कर का पुस्तकों में लेखन कैसे किया जाता है? विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए।
